

चंडीगढ़, 2 जनवरी- प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी की वर्ष 2022 तक देश के हर परिवार को सस्ती आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमन्त्री श्री मनोहर लाल द्वारा की गई पहल के फलस्वरूप हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जब मुख्यमन्त्री ने स्वयं अपने हाथों से योजना के तहत हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा पंचकूला के सैक्टर 31 में भूतपूर्व एवं सेवारत रक्षाकर्मियों व अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए बहुमंजिला फ्लैटों की परियोजना के लाभपात्रों को आबंटन पत्र सौंपे हैं।

मुख्यमन्त्री ने लाभपात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्होंने समर्पण भाव से देश की सेवा की है। देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि सैनिकों की सेवा को सैल्यूट करना चाहिए। स्वयं मुख्यमन्त्री ने रक्षाकर्मियों की सेवा को सलाम किया।

हरियाणा आवास मन्त्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि यह देश की पहली स्कीम है, जहां रक्षाकर्मियों को एक ही स्थान पर फ्लैट्स की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि आवास बोर्ड के गठन के बाद बोर्ड द्वारा 90 हजार फ्लैट्स का निर्माण करवाया गया है, जिनमें 90 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निर्मित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रक्षाकर्मियों के लिए झज्जर व फरीदाबाद में भी ऐसी योजना क्रियान्वित की जा रही है।

इस अवसर पर आवास बोर्ड के चेयरमैन श्री जवाहर यादव ने योजना के बारे जानकारी देते हुए मुख्यमन्त्री को अवगत करवाया कि रक्षाकर्मियों के लिए बोर्ड द्वारा कुल 711 फ्लैट्स बनाने हैं। पहले चरण में 279 फ्लैट्स के आज फाइनल आबंटन पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें से 22 लाभपात्र आज यहां मुख्यमन्त्री के हाथों आबंटन पत्र कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3400 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से फ्लैट्स की कीमत निर्धारित की गई है और 30 महीनों के निर्धारित समय में फ्लैट्स का निर्माण कर लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। दूसरे चरण में 432 फ्लैट्स का निर्माण कार्य जारी है, जिस पर 85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। इन मकानों में लिफ्ट, पॉवर बैकअप, 24 घण्टे जलापूर्ति एवं पार्किंग की सुविधा होगी।

श्री यादव ने इस बात की भी जानकारी दी कि निकट भविष्य में रोहतक, गुरूग्राम, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ व चरखी दादरी में भी रक्षाकर्मियों के लिए आवासीय परियोजना आरम्भ की जाएगी। इसके अलावा बोर्ड द्वारा विभिन्न स्थानों पर 285 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 5297 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इस अवसर पर बोर्ड के प्रधान सचिव श्री श्रीकांत वाल्गद, मुख्य प्रशासक श्री सतपाल शर्मा, प्रमुख अभियंता श्री विरेन्द्र सिंह यादव के अलावा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।



Haryana Chief Minister, Mr. Manohar Lal handing over the final possession certificate of flats to the beneficiary of affordable Housing Scheme under Defence and Paramilitary category floated by Haryana Housing Board in Sector 31, Panckula at Chandigarh on January 2, 2019. Housing Minister, Mr. Krishan Lal Panwar and Chairman Haryana Housing Board, Mr. Jawahar Yadav are also seen in the picture.

